

महाराणा प्रताप पी.जी. कालेज, जंगल धूसड़, गोरखपुर

कक्षा : बी.कॉम. भाग-दो			पाठ्यक्रम योजना : सत्र २०१५-२०१६		विषय : ग्रुप-‘ए’
दिनांक	व्याख्यान	प्राध्यापक का नाम	ग्रुप-प्रश्नपत्र	अध्याय	शीर्षक
16.07.2015	1	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	लागत लेखांकन	अवधारणा, आवश्यकता
20.07.2015	2	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	लागत लेखांकन	कार्य व महत्व
21.07.2015	3	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	लागत लेखांकन	प्रकृति एवं लागत लेखांकन की पद्धति
22.07.2015	1	रवि कान्त मणि त्रिपाठी	ए-द्वितीय	आय कर-विषय प्रवेश	आयकर से आशय, उद्देश्य, गणना का आधार
23.07.2015	2	रवि कान्त मणि त्रिपाठी	ए-द्वितीय	आय कर-विषय प्रवेश	कर निर्धारण वर्ष, गत वर्ष, करदाता, माना हुआ
					करदाता
24.07.2015				कक्षाध्यापन	
25.07.2015	4	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	लागत के तत्व एवं वर्गीकरण	प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सामग्री
27.07.2015	5	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	लागत के तत्व एवं वर्गीकरण	प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष श्रम
28.07.2015	6	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	लागत के तत्व एवं वर्गीकरण	प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्यय की व्याख्या
29.07.2015	3	रवि कान्त मणि त्रिपाठी	ए-द्वितीय	कृषि आय	कृषि आय से आशय, प्रकार
30.07.2015	4	रवि कान्त मणि त्रिपाठी	ए-द्वितीय	कृषि आय	अंशतः कृषि आय
31.07.2015				कक्षाध्यापन	
01.08.2015	7	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	उपरिव्यय	उपरिव्ययों का अर्थ एवं व्याख्या
03.08.2015	8	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	उपरिव्यय	उपरिव्ययों का बंटवारा एवं प्रक्रिया
04.08.2015	9	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	सामग्री लागत नियंत्रण	FIFO पद्धति
05.08.2015	5	रवि कान्त मणि त्रिपाठी	ए-द्वितीय	निवास स्थान तथा कर-दायित्व	निवासी के प्रकार, श्रेणी-‘अ’ तथा ‘ब’ की शर्तें एवं
					अतिरिक्त शर्तें
06.08.2015	6	रवि कान्त मणि त्रिपाठी	ए-द्वितीय	निवास स्थान तथा कर-दायित्व	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
07.08.2015				कक्षाध्यापन	
08.08.2015	10	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	सामग्री लागत नियंत्रण	LIFO पद्धति
10.08.2015	11	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	सामग्री लागत नियंत्रण	साधारण औसत मूल्य पद्धतियाँ
11.08.2015	12	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	सामग्री लागत नियंत्रण	साधारण औसत मूल्य पद्धतियाँ
12.08.2015	7	रवि कान्त मणि त्रिपाठी	ए-द्वितीय	निवास स्थान तथा कर-दायित्व	निवास स्थान के आधार पर कर भार
13.08.2015	8	रवि कान्त मणि त्रिपाठी	ए-द्वितीय	निवास स्थान तथा कर-दायित्व	कर भार सम्बन्धी प्रश्न
17.08.2015				मूल्यांकन	
18.08.2015	13	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	इकाई अथवा उत्पादन लागत पद्धतियाँ	अर्थ एवं प्रारूप
20.08.2015	14	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	इकाई अथवा उत्पादन लागत पद्धतियाँ	प्रकृति, लागत लेखें एवं लागत पत्र में अन्तर
21.08.2015	15	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	उत्पादन लागत पद्धति	साधारण लागत पत्र
22.08.2015	9	रवि कान्त मणि त्रिपाठी	ए-द्वितीय	वेतन	वेतन से आशय

महाराणा प्रताप पी.जी. कालेज, जंगल धूसड़, गोरखपुर

कक्षा : बी.कॉम. भाग-दो			पाठ्यक्रम योजना : सत्र २०१५-२०१६		विषय : ग्रुप-‘ए’
दिनांक	व्याख्यान	प्राध्यापक का नाम	ग्रुप-क्रम	अध्याय	शीर्षक
23.08.2015	10	रवि कान्त मणि त्रिपाठी	ए-द्वितीय	वेतन	भत्ते के प्रकार
24.08.2015				कक्षाध्यापन	
25.08.2015	16	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	उत्पादन लागत पद्धति	साधारण लागत
26.08.2015	17	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	उत्पादन लागत पद्धति	जब निर्मित माल का प्रारम्भिक व अन्तिम शेष दिया हों।
27.08.2015	18	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	उत्पादन लागत पद्धति	चालू कार्य का दिया होना
31.08.2015	11	रवि कान्त मणि त्रिपाठी	ए-द्वितीय	वेतन	प्राविडेण्ड फण्ड, प्रकार एवं अन्तर
01.09.2015	12	रवि कान्त मणि त्रिपाठी	ए-द्वितीय	वेतन	अनुलाभ- किरायें से मुक्त मकान की सुविधा
03.09.2015				कक्षाध्यापन	
04.09.2015	19	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	उत्पादन लागत पद्धति	दो अवधियों का तुलनात्मक अध्ययन
07.09.2015	20	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	उत्पादन लागत पद्धति	स्थिर और परिवर्तनशील व्यय
08.09.2015	21	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	उत्पादन लागत पद्धति	नष्ट एवं दोषमुक्त उत्पादन
09.09.2015	13	रवि कान्त मणि त्रिपाठी	ए-द्वितीय	वेतन	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
10.09.2015	14	रवि कान्त मणि त्रिपाठी	ए-द्वितीय	वेतन	मोटरकार की सुविधा का मूल्य
11.09.2015				कक्षाध्यापन	
12.09.2015	22	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	निविदा मूल्य	अवधारणा अर्थ एवं मूल्य ज्ञात करना
14.09.2015	23	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	निविदा मूल्य	प्रति इकाई लागत एवं निविदा मूल्य
15.09.2015	24	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	निविदा मूल्य	सामग्री व श्रम या मूल लागत में परिवर्तन पर निविदा
16.09.2015	15	रवि कान्त मणि त्रिपाठी	ए-द्वितीय	वेतन	चिकित्सा सुविधा
18.09.2015	16	रवि कान्त मणि त्रिपाठी	ए-द्वितीय	वेतन	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
19.09.2015				मूल्यांकन	
21.09.2015	25	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	निविदा मूल्य	यदि निविदा से सम्बन्धित अप्रत्यक्ष व्यय न दिया हो
22.09.2015	26	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	निविदा मूल्य	जब लागत के विभिन्न मदों में परिवर्तन की सम्भावना
					हो
23.09.2015	27	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	निविदा मूल्य	स्थिर, परिवर्तनशील एवं अर्द्धपरिवर्तनशील लागत
24.09.2015	17	रवि कान्त मणि त्रिपाठी	ए-द्वितीय	वेतन	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
26.09.2015	18	रवि कान्त मणि त्रिपाठी	ए-द्वितीय	वेतन	ग्रेच्युटी
28.09.2015				कक्षाध्यापन	
29.09.2015	28	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	निविदा मूल्य	अर्द्धपरिवर्तनशील लागत
01.10.2015	29	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	परिचालन लागत	परिचालन लागत का अर्थ
03.10.2015	30	श्री सुभाष गुप्ता	ए-प्रथम	परिचालन लागत	क्षेत्र एवं इकाई

महाराणा प्रताप पी.जी. कालेज, जंगल धूसड़, गोरखपुर

कक्षा : बी.कॉम. भाग-दो			पाठ्यक्रम योजना : सत्र २०१५-२०१६		विषय : ग्रुप 'ए'
दिनांक	व्याख्यान	प्राध्यापक का नाम	ग्रुप-प्रश्नपत्र	अध्याय	शीर्षक
05.10.2015	19	रवि कान्त मणि त्रिपाठी	ए-द्वितीय	वेतन	ग्रेच्युटी के उदाहरण
06.10.2015	20	रवि कान्त मणि त्रिपाठी	ए-द्वितीय	वेतन	ग्रेच्युटी के उदाहरण
07.10.2015				कक्षाध्यापन	
08.10.2015	31	श्री सुभाष गुप्ता	प्रथम	परिचालन लागत	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
09.10.2015	32	" " "	प्रथम	प्रक्रिया लागत पद्धति	परिचय, सिद्धान्त एवं उद्देश्य
10.10.2015	33	" " "	प्रथम	प्रक्रिया लागत पद्धति	सामान्य प्रक्रिया लागत लेखे
14.10.2015	21	रवि कान्त मणि त्रिपाठी	द्वितीय	वेतन	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
15.10.2015	22	" " "	द्वितीय	वेतन	अर्जित अवकाश वेतन
16.10.2015				कक्षाध्यापन	
17.10.2015	34	श्री सुभाष गुप्ता	प्रथम	प्रक्रिया लागत पद्धति	जब क्षय है तथा प्रत्येक प्रक्रिया में प्रारम्भिक तथा अन्तिम
					शेष हो
19.10.2015	35	" " "	प्रथम	प्रक्रिया लागत पद्धति	जब भार में कमी है तथा अवशेष की बिक्री हों
28.10.2015	23	रवि कान्त मणि त्रिपाठी	द्वितीय	वेतन	सेवा से छटनी पर प्राप्त, प्राविडेण्ट फण्ड
29.10.2015	24	" " "	द्वितीय	वेतन	स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण, प्राविडेण्ट फण्ड
30.10.2015	25	" " "	द्वितीय	मकान सम्पत्ति से आय	मकान का वार्षिक मूल्य ज्ञात करना
31.10.2015				मासिक मूल्यांकन	
02.11.2014	36	श्री सुभाष गुप्ता	प्रथम	प्रक्रिया लागत पद्धति	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
03.11.2015	37	" " "	प्रथम	प्रक्रिया लागत पद्धति	असाधारण क्षय एवं बचत का अर्थ
04.11.2015	26	रवि कान्त मणि त्रिपाठी	द्वितीय	ह्रास	स्वीकृत कटौतियां
05.11.2015	27	" " "	द्वितीय	व्यापार एवं पेशे से आय	ऋण के ब्याज के सम्बन्ध में प्रावधान
06.11.2015	28	" " "	द्वितीय	व्यापार एवं पेशे से आय	क्रियात्मक प्रश्न
07.11.2015				कक्षाध्यापन	
14.11.2015	38	श्री सुभाष गुप्ता	प्रथम	प्रक्रिया लागत पद्धति	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
16.11.2015	39	" " "	प्रथम	प्रक्रिया लागत पद्धति	उपोत्पाद एवं संयुक्त लागतों का विभाजन
18.11.2015	29	रवि कान्त मणि त्रिपाठी	द्वितीय	ह्रास	आयकर अधिनियम में ह्रास से आशय स्वीकृति ह्रास की
					दर
19.11.2015	30	" " "	द्वितीय	व्यापार एवं पेशे से आय	प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विधि द्वारा व्यापार की दर योग्य आय
20.11.2015	31	" " "	द्वितीय	व्यापार एवं पेशे से आय	क्रियात्मक प्रश्न
21.11.2015				कक्षाध्यापन	
23.11.2015	40	श्री सुभाष गुप्ता	प्रथम	प्रक्रिया लागत पद्धति	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण

महाराणा प्रताप पी.जी. कालेज, जंगल धूसड़, गोरखपुर

कक्षा : बी.कॉम. भाग-दो			पाठ्यक्रम योजना : सत्र २०१५-२०१६		विषय : ग्रुप 'ए'
दिनांक	व्याख्यान	प्राध्यापक का नाम	ग्रुप-प्रश्नपत्र	अध्याय	शीर्षक
24.11.2015	41	" " "	प्रथम	प्रक्रिया लागत पद्धति	अर्थ एवं व्याख्या
25.11.2015	32	रवि कान्त मणि त्रिपाठी	द्वितीय	पूँजी लाभ	सम्पत्ति प्राप्त करने की लागत कर मुक्त पूँजी लाभ
26.11.2015		" " "	द्वितीय	पूँजी लाभ	" " "
27.11.2015	34	" " "	द्वितीय	पूँजी लाभ	क्रियात्मक प्रश्न
28.11.2015				मूल्यांकन	
30.11.2015	42	श्री सुभाष गुप्ता	प्रथम	अन्तर प्रक्रिया लागत	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
01.12.2015	43	श्री सुभाष गुप्ता	प्रथम	अन्तर प्रक्रिया लागत	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
03.12.2015	35	रवि कान्त मणि त्रिपाठी	द्वितीय	पूँजी लाभ	क्रियात्मक प्रश्न
07.12.2015	36	" " "	द्वितीय	अन्य साधनों से आय	आय जो कर योग्य हो
08.12.2015	37	" " "	द्वितीय	अन्य साधनों से आय	प्रमुख आयों का विवेचन एवं कटौतियाँ
09.12.2015				कक्षाध्यापन	
11.12.2015	44	श्री सुभाष गुप्ता	प्रथम	ठेका लागत पद्धति	अर्थ,उद्देश्य एवं प्रकार
12.12.2015	45	श्री सुभाष गुप्ता	प्रथम	ठेका लागत पद्धति	पूर्ण ठेके का उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
14.12.2015	38	डॉ. राजेश शुक्ल	द्वितीय	अन्य साधनों से आय	क्रियात्मक प्रश्न
15.12.2015	39	" " "	द्वितीय	धारा 80C से 80U	कतिपय आयों के सम्बन्ध में की जाने वाली कटौतियाँ
16.12.2015	40	" " "	द्वितीय	" " "	भुगतान के सम्बन्ध में दी जाने वाली कटौतियाँ
19.12.2015				कक्षाध्यापन	
21.12.2015	46	श्री सुभाष गुप्ता	प्रथम	ठेका लागत पद्धति	पूर्व ठेके का उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
22.12.2015	47	श्री सुभाष गुप्ता	प्रथम	ठेका लागत पद्धति	अपूर्ण ठेके का उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
28.12.2015	41	रवि कान्त मणि त्रिपाठी	द्वितीय	व्यक्तियों की कुल आय की गणना	एक व्यक्ति की कुल आय की गणना करने की विधि
29.12.2015	42	" " "	द्वितीय	कर दायित्व	आयकर से छूट प्रतिभूति संव्यवहार कृषि आय
30.12.2015	43	" " "	द्वितीय	कर दायित्व	विविध उदाहरण
31.12.2015				मासिक मूल्यांकन	
01.01.2016	48	श्री सुभाष गुप्ता	प्रथम	ठेका लागत पद्धति	अपूर्ण ठेके का उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
02.01.2016	49	श्री सुभाष गुप्ता	प्रथम	ठेका लागत पद्धति	संदिग्धता के लिए संचय का उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
04.01.2016	44	रवि कान्त मणि त्रिपाठी	द्वितीय	HUF का कर निर्धारण	HUF का आशय, स्वीकृत कटौतियाँ
06.01.2016	45	" " "	द्वितीय	HUF का कर निर्धारण	कर दायित्व की गणना
07.01.2016	46	" " "	द्वितीय	फर्म व्यक्तियों के समुदाय का कर—	अर्थ,184 धारा की पूर्ति न देने पर कर निर्धारण
				दायित्व	
08.01.2016					

महाराणा प्रताप पी.जी. कालेज, जंगल धूसड़, गोरखपुर

कक्षा : बी.कॉम. भाग-दो			पाठ्यक्रम योजना : सत्र २०१५-२०१६		विषय : ग्रुप 'ए'
दिनांक	व्याख्यान	प्राध्यापक का नाम	ग्रुप-प्रश्नपत्र	अध्याय	शीर्षक
09.01.2016	50	श्री सुभाष गुप्ता	प्रथम	अंकेक्षण	अंकेक्षण का उद्भव एवं विकास
11.01.2016	51	श्री सुभाष गुप्ता	प्रथम	अंकेक्षण	अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता एवं प्रकृति
12.01.2016	47	डॉ. राजेश शुक्ल	द्वितीय	हानियों की पूर्ति	फर्म से साझेदार की आय की गणना
					40 (बी) के स्पष्टीकरण
13.01.2016	48	" " "	द्वितीय	हानियों की पूर्ति	फर्म का विघटन
16.01.2016	49	" " "	द्वितीय	फर्म व्यक्तियों के समुदाय का कर दायित्व	विविध क्रियात्मक प्रश्न
18.01.2016				कक्षाध्यापन	
19.01.2016	52	श्री सुभाष गुप्ता	प्रथम	अंकेक्षण	पुस्तकपालन, लेखाकर्म, अंकेक्षण एवं अनु
					संधान
20.01.2016	53	श्री सुभाष गुप्ता	प्रथम	अंकेक्षण	उद्देश्य, लाभ एवं सीमायें
21.01.2016	50	रवि कान्त मणि त्रिपाठी	द्वितीय	हानियों की पूर्ति	हानियों की पूर्ति के सम्बन्ध में प्रावधान
22.01.2016	51	" " "	द्वितीय	हानियों की पूर्ति	हानियों को आगे ले जाना तथा उनकी
					पूर्ति करना
23.01.2016	52	" " "	द्वितीय	कर का अग्रिम भुगतान	अग्रिम कर की गणना विधि
25.01.2016				मूल्यांकन	
27.01.2016	54	श्री सुभाष गुप्ता	प्रथम	अंकेक्षण का वर्गीकरण	व्यवसाय के संगठन की दृष्टि से
28.01.2016	55	श्री सुभाष गुप्ता	प्रथम	अंकेक्षण का वर्गीकरण	व्यावहारिक दृष्टि से
29.01.2016	53	रवि कान्त मणि त्रिपाठी	द्वितीय	कर का अग्रिम भुगतान	पूँजी लाभ एवं आकस्मिक आय पर अग्रिम
					कर का भुगतान
30.01.2016	54	" " "	द्वितीय	अपील एवं पुनर्विचार	अपील की कार्यवाही
30.01.2016	55	" " "	द्वितीय	अर्थदण्ड, जुर्मा तथा अभियोजना	सामान्य सिद्धान्त
		अतिरिक्त कक्षा			
	56	श्री सुभाष गुप्ता	प्रथम	अंकेक्षण के प्रकार या वर्गीकरण	चालू अंकेक्षण एवं सामयिक अंकेक्षण
	57	श्री सुभाष गुप्ता	प्रथम	" " "	अन्तरिम, आन्तरिक एवं बाह्य अंकेक्षण
	56	रवि कान्त मणि त्रिपाठी	द्वितीय	अर्थ दण्ड, जुर्मा तथा अभियोजना	अर्थदण्ड की मर्दें
	57	" " "	द्वितीय	कर नियोजन की अवधारणा	कर नियोजन का आशय एवं प्रकार
	58	" " "	द्वितीय	" " "	कर वचना एवं बचाव तथा दोषों में अन्तर
	59	श्री सुभाष गुप्ता	प्रथम	अंकेक्षण प्रक्रिया एवं कार्यक्रम	अंकेक्षण कार्यक्रम
	59	श्री सुभाष गुप्ता	प्रथम	" " "	नैतिक जाँच, परीक्षण जाँच एवं महत्व जाँ

महाराणा प्रताप पी.जी. कालेज, जंगल धूसड़, गोरखपुर

[illegible]